

ह्यूमन पैनजीनोम मैप

प्रलिमिस के लिये:

ह्यूमन पैनजीनोम मैप, [जीनोम](#), [डीएनए](#), जीन, रेफरेंस जीनोम, [जीनोम इंडिपिा प्रोजेक्ट](#)

मेन्स के लिये:

ह्यूमन पैनजीनोम मैप और इसका महत्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर जर्नल में एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से अफ्रीका के साथ-साथ कैरबियन, अमेरिका, पूर्वी एशिया और यूरोप के 47 गुमनाम व्यक्तियों (19 पुरुष तथा 28 महिलाएँ) के जीनोम का उपयोग करके बनाया गया पैनजीनोम रेफरेंस मैप का वर्णन किया गया है।

जीनोम:

परचियः


- जीनोम जीवन के लिये एक रूपरेखा या नरिदेश पुस्तकिका की तरह है। इसमें हमारे सभी जीन तथा जीनों के बीच का अंतर शामिल होता है जो हमारे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं।
- हमारे गुणसूत्र [डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एस्डि](#) (Deoxyribonucleic Acid- DNA) से बने होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स या बेस (A, T, G और C) नामक चार बलिडगि ब्लॉक्स से बना एक लंबा तंतु है। इन बलिडगि ब्लॉक्स को वभिन्न संयोजनों में व्यवस्थित किया जाता है और 23 जोड़ी गुणसूत्रों को बनाने के लिये लाखों बार दोहराया जाता है।
- जीनोम हमारे जेनेटिक मेकअप के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है और शोधकर्ताओं को मानव जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य के वभिन्न पहलुओं का पता लगाने में मदद करता है।

जीनोम अनुक्रमणः

- जीनोम अनुक्रमण वह विधि है जिसका उपयोग चार न्यूक्लियोटाइड्स (A, T, G और C) के स्टीक क्रम के निर्धारण तथा उन्हें गुणसूत्रों में कैसे व्यवस्थित किया जाए, के लिये किया जाता है।
- अलग-अलग जीनोम का अनुक्रमण करके वैज्ञानिक मानव आनुवंशिक विधिता के बारे में जान सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि कृषि बीमारियाँ हमें कैसे प्रभावित करती हैं।

THE GENOME

A genome is an organism's complete set of DNA—basically a blueprint for an organism's structure and function.



संदर्भ जीनोम:

पराचिय:

- संदर्भ जीनोम या संदर्भ मानचतिर एक मानक मानचतिर की तरह होता है जिसका उपयोग वैज्ञानिक तब करते हैं जब वे नए जीनोम का अनुक्रम और अध्ययन करते हैं। यह नए अनुक्रमणिका जीनोम एवं संदर्भ जीनोम के बीच के अंतरों की तुलना करने तथा समझने हेतु दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है।

महत्व:

- वर्ष 2001 में बनाया गया पहला संदर्भ जीनोम एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। इसने वैज्ञानिकों को रोग-संबंधी जीन खोजने, कैंसर जैसी बीमारियों के आनुवंशिक पहलुओं को समझने एवं नए नैदानिक परीक्षण विकसित करने में मदद की। हालाँकि इसकी कमर्थियों के कारण यह उपयोगी नहीं था।

दोष:

- यह ज्यादातर अफ्रीकी और यूरोपीय मशिरति वंश के व्यक्तियों के जीनोम पर आधारित था और इसमें कुछ अंतराल और कमर्थियाँ थीं।
- जबकि निया संदर्भ जीनोम या पैन-जीनोम व्यापक और तुटभिक्त है, फरि भी यह मानव आनुवंशिकी की पूर्ण विविधता का प्रतनिधित्व नहीं करता है।

पैन जीनोम मैप:

पैन जीनोम मैप:

- पैन जीनोम, पछिले रेखिकि संदर्भ जीनोम के विपरीत एक ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है। पैन जीनोम में प्रत्येक गुणसूत्र की नोड्स के साथ बाँस के तने के रूप में कलपना की जा सकती है।
- ये नोड्स अनुक्रमों के वसितार को प्रदर्शित करते हैं जो सभी 47 व्यक्तियों के बीच अनुक्रमों का खंड अभसिरण (समान) हैं। नोड्स के बीच इंटरनोड्स लंबाई में भिन्न होते हैं एवं विभिन्न वंशों के व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक भन्नता को प्रदर्शित करते हैं।
- पैन-जीनोम परियोजना में गुणसूतरों के पूरण और नरितर मानचतिरण के लिये शोधकरत्ताओं ने लॉन्ग-रीडDNA अनुक्रमण नामक एक तकनीक का उपयोग किया जिसके द्वारा स्टीक एवं लॉन्ग DNA स्ट्रैंड का उत्पादन कर पूरण और नरितर गुणसूतर मानचतिरण किया जा सकता है।

पैन जीनोम मैप का महत्व:

- हालाँकि कोई भी दो इंसान अपने DNA का 99% से अधिक हसिसा साझा कर सकते हैं, किंतु फरि भी किनीहीं दो व्यक्तियों के मध्य लगभग 0.4% DNA का अंतर रहता है। यह अंतर कम हो सकता है लेकिन मानव जीनोम (3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स) के विशाल आकार को देखते हुए यह अंतर जो कलिंगभग 12.8 मलियन न्यूक्लियोटाइड्स का है, महत्वपूर्ण हो जाता है।
- मानव जीनोम का एक पूरण और स्टीक पैन जीनोम मैप इन अंतरों को बेहतर ढंग से समझने एवं सानां के मध्य विविधता की व्याख्या करने में मदद कर सकता है।
- यह आनुवंशिक विविधियों का अध्ययन करने में भी सहायता करेगा जो अंतरनिहित स्वास्थ्य स्थितियों में योगदान करते हैं।
- हालाँकि वर्तमान मैप/मानचतिरण में भारतीयों के जीनोम शामिल नहीं हैं, फरि भी यहमौजूदा एक्यूरेट रेफरेंस जीनोम के सम्मुख भारतीय जीनोम की तुलना और मानचतिरण करने में सहायक होगा।
- भविष्य का पैन जीनोम मानचतिरण उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय जीनोम सहित देश के भीतर विविध और अलग-थलग आबादी को समाहित करते हुए रोगों की व्यापकता, दुर्लभ रोगों से संबंधित नए जीनों की खोज, बेहतर नैदानिक तरीकों तथा इन रोगों के लिये उचित दवाओं के विकास में मूल्यवान अंतरदृष्टिप्रदान करेंगे।

कमर्थियाँ:

- हालाँकि वर्तमान पैन जीनोम मैप में अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया और ओशनिया में स्वदेशी समूहों तथा पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों जैसी विविध आबादी के प्रतनिधित्व का अभाव है।

भारत में जीनोम मैपगि पहल की स्थिति:

- अप्रैल 2023 में सरकार ने घोषणा की किउसका लक्ष्य **जीनोम इंडिया परोजेक्ट (GIP)** के तहत वर्ष 2023 के अंत तक 10,000 जीनोम का अनुक्रम करना है।
- GIP का उद्देश्य भारतीय जीनोम का एक डेटाबेस बनाना है, शोधकरत्ता इनद्वतीय आनुवंशिक रूपों के बारे में जान सकते हैं और दवाओं के नरिमाण एवं उपचार के लिये व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।
- यूनाइटेड कंगडम, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में से हैं जिनके पास अपने जीनोम के कम-से-कम 1,00,000 अनुक्रमों के लिये कार्यक्रम हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में कृषकि संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले 'जीनोम अनुक्रमण (जीनोम सीक्रेंसगि)' की तकनीक का आसन्न भविष्य में कसि प्रकार उपयोग किया जा सकता है? (2017)

- वभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहायिता के लिये आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिये जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है।
- यह तकनीक फसली पौधों की नई कसिमों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है।
- इसका प्रयोग फसलों में पोषी-रोगाणु संबंधों को समझने के लिये किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- चीनी वैज्ञानिकों ने वर्ष 2002 में चावल के जीनोम को डिकोड किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के वैज्ञानिकों ने चावल की बेहतर कसिमों जैसे- पूसा बासमती-1 और पूसा बासमती-1121 को विकसित करने के लिये जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया, जिसने वर्तमान में भारत के चावल नियात में काफी हद तक वृद्धि की है। कई ट्रांसजेनिक कसिमें भी विकसित की गई हैं, जिनमें कीट प्रतिरोधी कपास, शाकनाशी सहायिता सोयाबीन और वायरस प्रतिरोधी पपीता शामिल हैं। **अतः कथन 1 सही है।**
- पारंपरिक प्रजनन में पादप प्रजनक अपने खेतों की जाँच करते हैं और उन पौधों की खोज करते हैं जो वांछनीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये लक्षण उत्प्रविरतन नामक एक प्रक्रया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्प्रविरतन की प्राकृतिक दर उन सभी पौधों में लक्षणों को उत्पन्न करने के लिये बहुत धीमी और अवशिष्टनीय है जो कप्रजनक चाहते हैं। हालांकि जीनोम अनुक्रमण में कम समय लगता है, इस प्रकार यह अधिक बेहतर विकल्प है। **अतः कथन 2 सही है।**
- जीनोम अनुक्रमण एक फसल के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार यह रोगजनकों के अस्ततिव या प्रजनन क्षेत्र को समझने में सहायता प्रदान करता है। **अतः कथन 3 सही है।**
- **अतः विकल्प (D) सही है।**

स्रोत: द हंडि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/human-pangenome-map>